



May 21, 2024

The National Stock Exchange of India Department of Corporate Services/Listing

Limited

Exchange Plaza", 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai – 400 051

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai – 400 001

**SCRIP Code:** 531761

**NSE Symbol:** APOLLOPIPE

Dear Sir/Madam,

## **Sub: Copy of Newspaper Cuttings of Financial Results**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Newspaper cuttings of the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and financial year ended March 31, 2024, as approved by the Board of Directors in their Meeting held on May 20, 2024, and published in Business Standard Newspaper (English & Hindi edition) on May 21, 2024.

Submitted for your kind information and necessary records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Apollo Pipes Limited

**Ankit Sharma Company Secretary** (ICSI M. No: A47854)



## ODISHA GRAMYA BANK PLANNING DEPARTMENT

**HEAD OFFICE: GANDAMUNDA** PO: KHANDAGIRI, BHUBANESWAR-751030 Application is invited from interested Organisations for

appointment of consultant for GST CONSULTANT for the Bank. For details of the eligibility, scope, terms and conditions

please visit our website www.odishabank.in General Manager



Regd. Office: 1st Floor, Khivraj Complex 1, No.480. Arma Safai, Naedanam, Chennai 600 935 Website: www.indbankonline.com emait. cs@indbankonline.com Ph. 044 4531 3000

## **NOTICE OF POSTAL BALLOT**

Members are hereby informed that Notice of Postal Ballot along with an Explanatory Statement was sent on 20th May 2024 in electronic form to all shareholders of the Company who have registered their email ids with the Company or Depository as on Friday, 17th May 2024 (cut-off date) for approving a special business by means of Postal Ballot only by voting through e-voting.

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) and in accordance the relaxation granted by the Ministry of Corporate Affairs vide its circulars, the said notice has been sent seeking the approval of the members for appointment of Shri Devinder Kumar Singla as an Independent Director of the Company by way of a Special resolution through a Postal ballot by remote e-voting process. The Notice of Postal ballot is available on the website of the Company, www.indbankonline.com and website of CDSL, www.evotlogindia.com and also on the relevant section of websites of BSE Ltd and NSE Ltd where the Company's shares are listed.

The Company has engaged the services of CDSL to provide the e-voting facilities. Procedure for e-voting is mentioned in detail in the notice of the Postal ballot.

The E-voting will commence on Wednesday, 22nd May 2024, 9 AM and ends on Thursday, 20th June 2024, 5 PM. E-voting module will be disabled thereafter and will not available for voting. Members who have not received the Notice may download the same from the Website of the Company or may request for an electronic copy by writing to investors@indbankonline.com The Company has appointed Shri. Sriram Parthasarthy, Partner of M/s. SPNP & Associates, Practicing. Company Secretaries, Chennal as Scrutiniser for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner

E-Voting results will be announced within two working days from the date of end of e-voting. The results will be placed on the website of the Company and a copy of the same will be submitted with both the stock exchanges.

For any queries or issues regarding e-voting shall be addressed to Mr. Rakesh Dalvi. Sr. Manager. (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at Toll Free No : 1800 22 55 33

Place: Chennal Date: 20 05 2024 for Indbank Merchant Banking Services Limited

Chitra.MA Company Secretary

## **BHAGYANAGAR PROPERTIES LIMITED**

CIN: L70102TG2006PLC050019
ed Office: Sy.no.221 - 224 Part, Vattinagulapally, Rajendra
andal, Rangaroddi, Hyderabad, Telangana, India, 500032.
Tel: 040 - 27845119, E-mail: cs@surana.com
Website: www.bharwarangronosties.com

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING REMOTE EVOTING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the members of Bhagyanagar Properties Limited will be held on Friday, 14th June, 2024 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business mentioned in the Notice convening EGM in compliance with the Companies Act, 2013 (the act) and rules made thereunder read with the MCA Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39 2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 date December B. 2021, 3/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28. 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and all other circulars, clarifications issued in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA").

In compliance with the aforesaid circulars Notice of the EGM have been sent or 20th May, 2024 in electronic mode to those Members whose email ids are regis with the Company/Depository Participates and in physical mode to all the shareholders, whose address is registered with the Company as on 10<sup>th</sup> May, 2024 with the Company. Copy of notice can be downloaded from company's website: www.bhagyanagarproperties.com and on the website of KFin Technologies Limited ("KFin") https://evoting.kfintech.com.

In compliance with section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time and, the members are provided with the facility to cast their vote or resolution set forth in the Notice of the EGM using electronic voting system (e-voting) provided by KFin The voting right of members shall be in proportion to the equity shares held by them of the company as on 7th June, 2024 (cut-off date).

The remote e-voting period shall commence on Monday, 10th June, 2024 at 09.00 AM (IST) and shall end on Thursday, 13\*June, 2024 at 05.00 PM (IST) during this eriod, members may cast their vote electronically. The remote e-voting mod shall be disabled by KFin thereafter. Those members, who shall be present in the EGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolution ote e-voting, shall be eligible to vote through remote e-voting syste during the EGM.

The member who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM through VC/CAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires share of the company and becomes member of the company after the notice has been sent electronically or physically by the company. and hold shares as of the cut-off date; may obtain the Login ID and Password by g a request to einward.ris@kfintech.com However, if he/she is already red with KFin for remote e-voting then he/she can use his/her existing Use ID and Password for casting the votes

In case of any queries / grievances, you may refer the Frequently Asked Question in case of any queries? glievanices, you may refer are requency/sixeo quessions (FAQs) for Members and e-voting User Manual available at the 'download' section of https://evoting.kintech.com or call KFin Technologies Ltd on 1800 309 4001 (toll free) or may contact Mr. Laift Kumar Thanvi, Secretarial Dept., at the registered office of the Company situated at Sy.no.221 - 224 Part, Vattinagulapally. Rajendranagar Mandal, Rangareddi, Hyderabad; Telangana, India, 500032 Phone

The details of the EGM is available on the website of the company a www.bhagyanagarproperties.com, KFin at https://evoting.idintech.com

For BHAGYANAGAR PROPERTIES LIMITED NARENDER SURANA

Date: 20-05-2024 Place: Hyderabad DIRECTOR DIN: 00075086 ALPHA (GEO) (INDIA) LIMITED

(Rs. in Lakhs)

**Extract of Audited Consolidated Financial Results** 

for the Quarter and Year ended March 31, 2024

S. No.	Particulars	For the Quarter ended 31.03.2024	For the Quarter ended 31.12.2023	For the Quarter ended 31.03.2023	For the Year ended 31.03.2024	For the Year ended 31.03.2023
1	Total income from operations	5188.93	3924.47	1411.75	9866.83	6594.97
2	Profit / (loss) for the period (before Tax, exceptional and/or extraordinary items)	1426.74	474,75	(130.64)	1176.35	1786.18
3	Profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	706.16	474,75	(130.64)	455.77	1786.18
4	Net Profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	406.57	455.57	(102.86)	104.57	1299.16
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	391.85	457.72	(122.20)	138.83	1660.99
8	Equity share capital (Paid up)	636.48	636.48	636.48	636.48	636.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				27243.87	27680.91
8	Earnings per share of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operations):					
	Basic:	6.24	6.22	(1.61)	0.60	20.43
Į,	Diluted:	6.24	6.22	(1.61)	0.60	20.43

March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements). Regulations, 2015 and the above said detailed format of the Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024 is available on the Stock Exchange Websites - www.nsindia.com; www.bseindia.com and also at Company's website www.alphageoindia.com 2 The abstract of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024 is as given below:

50 mm 10 mm				12 - 21 - 22 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24 -	us. (in Laikins)
Particulars.	For the Quarter ended 31.03.2024	For the Quarter ended 31.12.2023	For the Quarter ended 31.03.2023	For the Year ended 31.03.2024	For the Year ended 31.03.2023
Total revenue from operations	4204.83	2315.45	1411.75	7273.71	6594.97
Profit before tax from continuing operations	1396.00	392.81	(53.69)	1111.52	2025.36
Profit after tax from continuing operations	1103.12	440.63	(25.91)	834.03	1538.34
Profit / (loss) from discontinuing operations		- 3	3.5		
Other comprehensive income (net of tax)	(22.92)	0.12	11.21	(19.99)	10.94
Total comprehensive income	1080.20	440.75	(14.70)	814.04	1549.28
			Commence of Tax 44 hours		

The detailed Statement of Standalone Audited Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2024 is available on the Stock Exchange Websites- www.nseindia.com, www.beeindia.com and also at the Company's website: www.alphageoindia.com For Alphageo (India) Limited Dinesh Alla

Chairman and Managing Director

# APOLLO PIPES LIMITED

CIN: L65999DL1985PLC022723 Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corporate Office: A-140, Sector-136, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301
Email: compliance@apollopipes.com, Website: www.apollopipes.com

Standalone Financial Results For The Quarter And Year Ended March 31, 2024

		Quarte	r ended	Year ended		
S. No.	Particulars	31.03.2024 (Un-audited)	31.03.2023 (Un-audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	
1	Total Income from Operations	24,611,51	25,265.35	98,104.24	91,648.71	
2	EBIDTA	2524.27	3,014.63	9925.42	6999.44	
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,542.47	2,014.82	6,444.25	3,273.74	
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,542.47	2,014.82	6,444.25	3,273.74	
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	651.67	1,502.76	4,243.94	2,391.49	
6	Total Comprehensive income for the period	647.27	1,502.76	5,260.70	5,573.90	
7	Equity Share Capital	3,935.32	3,932.82	3,935.32	3,932.82	
8	Other Equity			53,449.38	41,788.84	
9	Earnings Per Share (face value of ₹ 10/- each not annualised for quarterly figures)					
	Basic	1,65	3.82	10.78	6,08	
	Diluted:	1.62	3.82	10.54	6.08	

Brief of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024;

(₹ In Lacs except EPS)

		Quarter ended	Year ended
Particulars	31.03.2024	31.03.2024	
	(Un-audited)	(Audited)	
Г	Income from Operations	25,592.45	99,085.18
П	Profit Before Tax	1,580.79	6,482.58
Ш	Profit After Tax	690.00	4,282.26

During the quarter under review, the Parent Company acquired 53,57 % stake in Kisan Mouldings Limited on March 26, 2024. Hence previous period figures are not applicable.


The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. https://www.nseindia.com and https://www.bseindia.com and on the Company's website "www.apollopipes.com".

The Board of Directors in their meeting held on May 20, 2024 recommended a final dividend of ₹1 /-per equity share for the financial year ended March 31, 2024. This payment is subject to the approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting (AGM) of the Company and if approved would result in a net cash outflow of approximately ₹3.93 Crore

> For Apollo Pipes Limited Sameer Gupta Chairman & Managing Director







BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence)

(CIN: L32309KA1954G0I000787)

Registered & Corporate Office: Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045. E-mail: secretary@bel.co.in. Website: www.bel-india.in. Ph: 080-25039300. Fax: 080-25039266

# Extract of Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the guarter and year ended 31.03.2024

Standalone

Date : May 20, 2024

(₹ in Lakhs)

Consolidated

	EAVING VIOLE										
SI.	0240024300000		Quarter ende	d	Year	ended	Quarter ended			Year ended	
No	Particulars	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Auc	lited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Auc	lited)
1.	Total revenue from operations	8,52,854	4,13,669	6,45,658	20,16,939	17,64,620	8,56,408	4,16,216	6,47,912	20,26,824	17,73,444
2.	Net profit for the period before tax and exceptional items	2,38,561	1,17,226	1,78,149	5,33,456	3,98,488	2,39,007	1,13,195	1,78,156	5,26,621	3,92,291
3.	Net profit for the period before tax after exceptional items	2,38,561	1,17,226	1,78,149	5,33,456	3,98,488	2,39,007	1,13,195	1,78,156	5,26,621	3,92,291
4.	Net profit for the period after tax and exceptional items	1,78,352	89,330	1,36,536	4,02,000	3,00,667	1,79,667	86,026	1,38,201	3,98,524	2,98,624
5.	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,69,698	85,688	1,17,082	3,96,236	2,84,043	1,71,005	82,383	1,18,768	3,92,752	2,82,022
6.	Paid up equity share capital	73,098	73,098	73,098	73,098	73,098	73,098	73,098	73,098	73,098	73,098
7.	Other equity excluding revaluation reserves	1/27	-	2	15,35,141	12,85,101	22	-	4	15,59,549	13,13,065
8.	Earnings per share (of ₹ 1/- each not annualised) (for continuing and discontinued operations) Basic & diluted (in ₹)	2.44	1.22	1.86	5.50	4.11	2.46	1.17	1.90	5.45	4.09

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.bel-india.in).

2. The above statement of Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 20th May, 2024.

For and on behalf of Board of Directors

Bhanu Prakash Srivastava

Chairman & Managing Director (Additional Charge)

Place: Darjeeling

Date: 20" May, 2024

Oswal Agro Mills Limited CIN: L15319PB1979PLC012267

Corporate Office: 7th Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001

# Extract of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year ended 31" March, 2024

80.0

m1				(Amoun	t in ₹ Lakh)			
	Standalone							
8 8 11	C	uarter Ended	i	Year E	nded			
Particulars	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)			
Total Income from Operations	61.50	44.15	2,316.23	186.73	2,795.34			
Net Profit/(Loss) for the period/year before exceptional item and tax	180.18	72,42	87.25	393.36	1,603.73			
Net Profit/(Loss) for the period/year after exceptional item (before tax)	177.65	72.42	87.25	390.83	1,603.73			
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax	(33.82)	105.07	(200.43)	175.36	938.17			
Total Comprehensive income for the period/year [comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	(26.48)	105.11	(133.76)	182.81	995.67			
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48			
Other equity (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet		**	-	47,242.26	47,059.45			

Note:-The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Year ended Standalone Audited Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.oswalagromills.com. Figures for the quarters ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures for the full financial year and the reviewed year to date figures upto the third quarter of the respective financial years

(0.03)

For Oswal Agro Mills Limited sd/-**B N Gupta CEO** and Whole Time Director

0.13

# Extract of the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31" March, 2024

				(Amoun	t in ₹ Lakh)			
	Consolidated							
WEXNEL IN		uarter Ended	i	Year E	nded			
Particulars	31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)			
Total Income from Operations	61.50	44.15	2,316.23	186.73	2,795.34			
Net Profit/(Loss) for the period/year before exceptional item and tax	180.18	72.42	87.25	393.36	1,603.73			
Net Profit/(Loss) for the period/year after exceptional item (before tax)	177.65	72.42	87.25	390.83	1,603.73			
Profit for the period/Year after tax but before share of net profit of investments accounted for using equity method	(33.82)	105.07	(200.43)	175.36	938.17			
Net Profit/(Loss) for the period/year after tax	114.20	(16.57)	(188.50)	457.34	2,387.71			
Total Comprehensive income for the period/year [comprising profit/(loss) for the period/year (after tax) and Other comprehensive income (after tax)]	132.32	(16.53)	(139.89)	475.60	2,445.24			
Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48	13,423.48			
Other equity (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet	-	+-0	-	70,343.64	69,868.04			
Basic and Diluted Earnings per share (Face Value of ₹10/- each)	0.09	(0.01)	(0.14)	0.34	1.78			

Note: The above is an extract of the detailed format of the Quarterly and Year Ended Consolidated Audited Financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the Financial results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.oswalagromills.com. Figures for the quarters ended 31 March 2024 and 31 March 2023 are the balancing figures between audited figures for the full financial year and the reviewed year to date figures upto the third quarter of the respective financial years

For Oswal Agro Mills Limited

B N Gupta **CEO** and Whole Time Director DIN: 00562338

DIN: 00562338

Date: - 20.05.2024 Place:- New Delhi

Contact: 0161- 2544313; website: www.oswalagromilis.com; Email ID: oswal@oswalagromilis.com



Date: - 20.05.2024

Place: - New Delhi

Basic and Diluted Earnings per share (Face Value of ₹10/- each)





(0.15)













#### कब्ब सूचन (अन्त्रत संपत्ति हेत्)

जब कि., इंडियाबुल्स हार्टासंग कायनान्त लिमिटेड (CIN:1.65922DI.2005PLC136029) प्राप्युःत अधिकारी होने के नाते अधोहस्तावारी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्वशन ऑफ परगर्जीशागल असेट्स एंड एन्फोर्सनेन्ट ऑफ सिक्नोरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पारा 13(12) के साथ सिक्वोरीटी इंटरेस्ट (एनमेस्निन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपगोप करके कर्जदार रीटा और हरिओम को 19.02.2024 की सूनना में वर्षन के अनुसार कर्ज खाता नं. HDHLRHN00485578 (डीएयएफएन का पहले लेन कोड 00002318) की गरि। रू..19,00,312.61 /- (रूपण् उन्नीस लाख तीन सौ बारह और इकसठ पैसे मात्र) और 16.02.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के पीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधियाचना सूचना जारी की थी।

पनर्शात पुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एततद्वारा कर्जदार और सर्व सनान्य जनता को सूनना दी जाती है कि, अधोहस्ताधरी ने उक्त कानून की पारा 13 की उप पारा (4) के साथ उक्त कारून के नियम 8 के वहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्सनेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 16.05.2024 को संपत्ति पर साकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्वदरों और सामान्यतः बनता को एततुद्वरा संबंध के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संचति के साथ कोई भी सीदा राशि क.19,00,312.61 /- (रुपए उन्नीस लाख तीन सौ बारह और इकसठ पैसे मात्र) 16.02.2024 के अनुसार और उस पर ब्यान के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं कर ध्यान अधिनिगम की धारा 13 की उम - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मंपुर्ण दुसरी मंजिल (रूफ राइट्स के साथ) संपत्ति नं.ए -65 और 66, एरिया गापित 50 स्के.पार्टस यानि 41.81 स्के.मी. (12.1/2'X20') खसरा नं. 8/24 में से, गाँव मंटियाला में स्थित, दिल्ली राज्य, दिल्ली कॉलोनी जो जैन पार्क से पहचानी जाती है, ब्लॉक ए, गली नं.4, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059, उक्त संपत्ति की जमीन के नीचे सभी समानुपातिक अधिकारों के साथ और जो निस्ननुंसार परिबद्ध है:

पूर्व : संपत्ति नं.65 का भाग उत्तर: फ्लॉट का भाग दिनांक:16.05.2024 स्थान : नई दिल्ली

पश्चिम: प्लॉट का भाग दक्षिण:रोड 16 फीट चौडा

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिन फायनान्स लिमिटेड

## निडो होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हावसिंग बराइनेंस लिमिटेड से जात) पंजीकृत कार्यालय टॉवर 3 पर रिश्वत 6यां तल, विंग 'सी', क्योहिन्द सिटी मील, कोहिन्द सिटी, किरोल रोड, कुला (वेरट), मुम्बई–400 070 प्रावेशिक कार्यालय : दुसरा तल, उसी राजेंद्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत कब्जा सूचना

nido

जबकि अधारस्तावणे "निजी होम कावृनेश तिमिटेड (पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग कावृनेश तिमिटेड से जात)" के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, विनीय धरिसंगविधों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निगांश और प्रतिभृति कित प्रवर्तन (दूसरा) अध्यायेश, 2002 (2002 का अव्हेश 3) और प्रवर्त शक्तियों का प्रधीग और प्रतिभृति हित (प्रवर्तान), नियमों 2002 के निवम 3 के साथ पठित थारा 33(12) के तहत विस्तृत रूप से उध्यसकार्त / औं को मांच सूचना जासे कर, संबंधित उधारकर्ताओं को 60 दिनों के भीतर पुनरान की वास्तविक दिनांक तक सभी लागती, शुन्कों और खर्मों के साथ वक्त सूचनाओं में उल्लेखित सांगे उस जो प्रति से पुकाने का आहवान किया था। उत्तर व धारकर्ता / सह-उधारकर्ता सांगे वने में विफल को है, एतद द्वारा उच्चरकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधीहस्ताबरी ने उस संचितियम जी चारा 13(4) के उस नियमों के नियम के तहत उसे प्रवत हरितयों के प्रयोग में उल्लेखित दिनाकों में यर्गित संपत्ति का प्रतिकरणक करना ले लिया है। निर्माण रूप से उचारकार्याओं और आम करता को एतद्वारा आगाह किया करता है कि संपत्तिकों से कोई व्यवहार न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार नविष्य के ब्याज, लागत और संबंधित दिशांकों से शुरूव के साथ उसने निर्देश राशि के लिए" **निर्दा** 

होम काकुनेस निनिदेख ( यूर्व में एकल्याकुत हार्जिंग काकुनेस लिम्टिक से झात)'' के प्रभाश के अधीन होगा। उक्षरकर्वाओं, सह—उक्सरकर्वाओं और गार्रटर, प्रतिभृतियों, बकाया शक्ति, धारा । ३(२) के ताल मेले गई मांग सूचना और उसके ताल दावा व बर्ज राजि। और बाबले की दिशांक शीधे दि वर्ज हैं।

उचारकर्ता पता सह—उचारकर्ता, गारंटर का नाम और ऋण खाता संक्ष्मा और ऋण राशि :

म्प्ल सिंधाल (उभारकर्ता) निमाक्षी सिंधाल (कह-उभारकर्ता) न.सं. १४२१-२/१६३, दुसरातल, ट्राईनफर, नर्पत्रपुरा, ऑकरनगर, गार्व-वस्ट कर्ती-११००३५ संपत्ति चता : रांपनि सं.३४२, प्रथम तल जिना छत अधिकारों, गुरुष सहक जूर बाग, चासस सं. ६४१/१७७, डाम बोकरी नवारकावादः टाईनस्य दिल्ली १ १००३५

ऋण साता मं.: LNDP0HL0000086669 अन अनुवंध दिनांक: 26/02/1021 ऋण राशि : क. 10,70,000/-( चपवे अहाराह लाख सर्चर हवार मात्र )

एनपीए दिलांक: 04/02/2024 भाग सूक्ता दिलांक: 18/02/2024 **प्रकारण स्त्रीर : स. 19,21,665,72/**=(रूपये उन्नीस लाख इंबर्जरेस हजार घट सी पैसर और बहुतर पैसे मात्र) मांच सुसना दिनांत करजा दिनांक | 17.05.2024

**संपत्ति की अनुसूची** : मकान सं. 382, प्रथ तल, बिना छत अधिकारों, मुख्य सड़क, जुर बाग, खसरासं. 541/197, ग्राम चीकरी, मुबारकाबाद, टाईनगर, दिल्ली १ १००३६का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। **उक्त संपत्ति का सीमांकन प्रकार : उत्तर** : चीपाल (प्लॉटका हिस्सा), **दक्षिण** : मुख्य सडक. **पूर्व** : मकान सं. ३८२-ए. **पश्चिम :** डॉ. राम किशन का मकान

रथान : दिल्ली हरता./- प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 21,05,2024 प्रति निक्षे होन फाइनेंस लिमिटेड

# HDFC BANK तर्पातमः स्वाधीस्थाती चैक प्रावसः सेनापित सापत्र मार्च, लीक्षर प्रोक्त (बेस्ट), पुष्पर्व-400013 क्षत्री चैक सिमिट्टेंड, विशेष प्रवासन विष्णा, पुरुत, पुरुत्तव चवन, ४ बारतुर स्वय नपन सार्च, दिस्ती-1%

ई-नोलामी विक्री सूचना अध्यत सम्मीत्वों की विक्री के लिए ई-नोलामी के लिए सार्वजनक मूचना प्रतिकृति कि (फार) निका, 2002 के सम्म पीट निर्वण पोल्पान के प्रतिकृतिक पूर्वण का प्रतिकृतिक प्रतिक्र स्थापन अध्यतिक के क्षेत्र निकार के प्रतिक्र के क्षेत्र निकार के प्रतिक्र के क्षेत्र के स्थितन के बार उक्त निवासकों के लिए। ह के मान चंदर उस्त अधिनय की वार 1) (a) के कोरी प्रदेश कोरानी का चर्चन कर देता के स्थान के स्थान के लिए अधिरस्तावरी "तहा है और है, जो है वही है, जो कुछ भी है जहाँ है ज्या है जाता की स्थान के कि एक अधिरस्ताव के स्थान कर है । सम्बद्ध के स्थान के स्थान के कि एक कोरी के अधिर के स्थान कर है । सम्बद्ध के स्थान के स्

जयल सम्पविष्यं का निवरण/साते/याँज/ईएमडी/आदि का विकास

भारत तथा सात का ग्राम	सम्पन्नि के वेधकरूत तता जमानती का नाम	राणीत कर विचला	वाग सूचना के अनुसार वर्षित साम सूचना की विश्वि	सार्थक कृत कृत्य संस्कृत स्थार	निरीक्षण को तिथि एवं समय
एचटीएकसी बैंक लिब्टेड, दिल्ली सेमॉर एजसपोर्टस	वेषककर्ता/पारंटर का नम : श्री ऋरद चींगरा वक्ष सभी सकी धींगरा	तल, डब्ल्युनेद-230, इन्दरपुरी-	ऋण खाते के तहत पूर्ण और अंतिम गुगतान की	%. 2,55,00,000/- %. 25,50,000/- %. 1,00,000/-	06.05.2024 को 10.30 बजे पूर्वा 1 11.30 बजे पूर्वा
10018970000036	चका पुत्रा चका बारच	110012, नई दिल्ली	विधि तक लागत और व्यय के साथ अतिरिक्त व्याज के साथ 31.08.2022 तक वकाया	g-dised all tales by your a source of affice a file tales and gallery	
एनडीएफसी बैंक लिक्टिड, दिल्ली 1. मैससे दिल्ली किरवाता ट्रेडर्स 50200006370833 2. मैससे निवा ट्रेडर्स इसके प्रोपसहरर श्री	वेषकवर्ता/गरेटर का समः । मेटिट अङ्ग्यान, श्री मुकेश कुमार पूचा, मुश्री संच्या गुप्ता, मुश्री उमा गुप्ता	तक, माप 186.67 वर्ष गज, जागृति जपर, बीएनजीएस लिपिटेंड, कॉलोनी जागृति एंक्लेव, हिल्ली के लेकाउट प्लान		6. 1,89,00,000/- 6. 18,90,000/- 6. 1,00,000/-	05,06,2024 को 3.30 बने आप. में 4.30 बने अब
मुकेश गुप्ता के माध्यम में 50200016290981		रिस्ची संपत्ति पैरार्स तिया ट्रेडर्स के स्वाते में कॉस संपालिक है	ऑतेम मुगतान की तारीख तक लागत और खर्च के साथ अतिरिक्त व्याज के साथ	f-hard all tide out were a same and office and so that today out	

रियम को उसें 1. ई-विनामें "मैठा है जह है, जो मी को है तथा जाना। उसेंट आपार का अमेरिक भी जा की है।

# PEARL GLOBAL Exceeding Expectations... Always

Place | Gurugram

Dated : May 20, 2024

### PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1989PLC036849

Registered Office.: C-17/1, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057

Corp. Off.: Pearl Tower Plot No. 51, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001, Haryana Email: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

## **EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. in Lakhs except earning per share data)

5. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1.	Total income from operations	89,219.73	73,559.08	3,46,851.98	3,18,121,91
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	5,503.32	3,817.75	19,266.11	16,238.96
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items*)	5,440.21	5,594.04	19,205.97	17,584.92
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	4,898.30	5,332.34	16,912.36	15,299.22
5,	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	4,618.79	6,053.17	16,424.74	13,995.27
6.	Equity Share Capital	2,179.18	2,166.39	2,179.18	2,166,39
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	88	32	78,023.55	70,080,17
8.	Earning Per Share (on ₹5/- each)				
	Basic:	11.82	11.99	40.26	34.45
	Diluted:	11.75	11.97	40.05	34.40

(\*) Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind AS Rules. Notes

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Finacial Results (both Consolidated & Standalone) are available on the Company's website at www.pearlglobal.com, besides the websites of BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
- The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of the Directors of company at their meetings held on May 20, 2024. The financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
- (3) Additional information on standalone financial results pursant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

S, No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
(a)	Turnover	32,007.03	27,460.80	95,366.71	1,10,377,07
(b)	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items	1,321.86	2,954.17	3,047.69	6,167.05
(c)	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	1,165.32	3,635.24	2,971.48	5,103.22

By order of the Board For Pearl Global Industries Limited

(Pallab Banerjee) Managing Director

DIN 07193749

अपोलो पाइप्स लिमिटेड

सीवाईएम : एलाराज्यवीएलावाराजीएलसीवारायव पंजी कार्याच्या : वर, सर्राणिन्य एनावेद, विकास गार्ग, दिस्सी-119002 कार्योच्य : सु-140, सेन्दर-130, नोएस, गीमानुद्ध नगर, वरात प्रदेश-201301 कार्याच्या : वर, प्रशोधिन्य एनावेद विकास गार्ग, दिस्सी-119002 ई-नेस : compliance@apollopipes.com, वेस्टाइट- www.apollopipes.com,

31 मार्च, 2024 को बामाज तिमाड़ी और वर्ष हेतु लेखापरीवित एक्ट वित्तीय परिवामी का खारांश

_				III. Macaza	स में शिवाय ईपीर
		रिकारी	रागाचा	वर्षे ।	सम्पन्त
전	face	३१-(१३-२०२४ (अलेक्सप्टेकित)	३१-०३-२०२५ (ब्रह्मेकागरीकित)	31-03-2024 (जेवा गीवित)	ज्ञा-वक-उध्यक्त (लेकापरीविद्य)
1	वरियातन से कृत अव	24,611.51	25,265.35	98,104.24	91,648.71
2	इंग्रेजइंजैटीए	2524.27	3,014.63	9925.42	5999.44
3	क्षविषे हेंद्र शुद्ध लाग/(हानि) (कर, खपकाद राष्ट्र/अधका अलामारण धर्वों थे महारो)	1,542.47	2,014.82	8,444.25	3,273.74
4	अवधि हेतु शुद्ध ताम/(हानि) कर से चटले (अभ्याद तथा/अध्या तसामारण पद्में के माद)	1,542.47	2,014.82	6,444.25	3,273.74
5	अवधि हेतु सुद्ध लग्/(तमि) कर चरवात (अक्वाद तमा/अधवा असम्बद्ध गर्दी के बाद)	651.67	1,502.76	4,243.94	2,391.49
6	असी हेतु कुत सम्पर्वेशी आप	647.27	1,502.76	5,260.70	5,573.90
7	इनिवटी जेवर पूंजी	3,935.32	3,932.82	3,935.32	3,932.8
8	अन्य इतिवटी			53,449.38	41,788.84
8	प्रति क्षेपर अर्थन (असित गूल्य कः 10/- प्रत्येक विकासी आंकवी हेतु वार्षिककृत नहीं)				A STATE OF THE STA
	पूत :	1.65	3.82	10.78	6.0
	रामुक्त :	1.62	3.82	10.54	6.0

क गार्च, 2024 को शमान तिमारी और वर्ष हेत् लेखानरीकित समेकित वितीय परिचामों का सारांश

		(रू साख ने सिवाय ईपीएस)
	रिगाडी शायच	वर्ष समाध
विवरण	31-03-2004	51-03-2024
The state of the s	(अलेन्सपरीवित)	(लेकानरीवित)
परिवालन से कुल आग	25,592.45	99,085.18
कर पूर्व लाग	1,580.79	6,482.58
वर पश्याव लाग	690.00	4,282.26

१ समीकाणीन तिमाडी के दौरान, मूल कम्पनी ने 26 मार्च, 2024 को किसान मेल्लिमा लिमिटेड में 53.57 का हित अर्जित किया है। अतः पूर्व अवधिमों के आंकड़े लागू नहीं हैं।

\$ उपरोक्त विकास सेवी (समीवन दाविज और प्रकटीकरण आदेश) विनियमावली 2015 के विनियम 23 के तादर स्टीक एक्सवेन्क्रेज में प्रस्ता किए गए तिमारी/वार्षिक किलीय परिणामें के विस्तृत प्रास्थ का संक्षिपा विकरण है। तिमारी/वार्षिक किलीय परिणामें का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज की वेशाहरूस नामत www.nseindia.com तमा www.bseindia.com पर और कमानी की वेशाहर www.apollopipea.com

निर्देशक मंडल ने 20 मई. 2024 को आयोजित जसकी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त कितीय वर्ष हेतु का 1/- प्रति इकिंग्दी शेवर का अंतिम लामांश संस्तुत किया है। यह मुनतान कन्यनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में श्रेयरवारकों के अनुमोदन के अधीन है और यदि अनुमोदित किया गया इसका परियाम क. 3.83 करोड़ के शुद्ध रोकड़ बहिर्प्रवाह के रूप में होशा।

वास्ते अपोलो पाइप्ता लिनिटेड **ERGT. /-**समीर गुप्ता पिनांक : 20 मई, 2024 अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक

# INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD.

**कीकृत कार्यातय**ः पूर्वात-१५, वर्त्या तल, सेक्टर-४४, इस्टिट्यूशनल सुरिया, युरुवाम, हरियामा-१**८७०८, शासा कार्यातय**ः कोटाः प्रथम तल, १७-ची, कोंगलेला, फलीकोज रुक्त के सामने, मुचानपुर, कोटा-204007, राजकाम, विसीदगढ़ - मुख्य सं २, सी-४, प्रमा वज, बीच नगर, विसीदगढ़-312001

## सार्गजनिक सूचना - अन्तर संपतिः के विक्रवार्व नीलारी

(स्तिपृति क्रिय (प्रवर्तन) निवस्थवती 2002 के नियम बहुं। के अंतर्गत) नितीय परिशायिक्या के प्रियन्तिक्य तथा प्रतिपृति क्रिय प्रवर्तन अधिनिक्य 2002 के अधिक अस्तर्गत अधिनिक्य (स्वर्धनायक्रमी) (प्रतिपृत्तिक क्ष्या में प्रियन्तिक स्वर्धनायक्रमी) के अधिक अस्तर्भ अधिक अस्तर्भ अधिक स्वर्धना अस्तर्भ अधिक स्वर्धना क्ष्या के सिक्य अस्तर्भ के सिक्य अस्तर्भ के सिक्य अस्तर्भ के सिक्य अस्तर्भ के स्वर्धक के साथ क्ष्यक क्षित्र के स्वर्धक क्ष्य में किन क्ष्यक्ष क्ष्या के किन क्ष्यक क्ष्यक क्ष्यक क्ष्यक क्ष्यक क्षित्र क्ष्यक क्

ऋण स्थाता प्रा	ज्ञानविते/ता ज्यानविते/ कार्य्ये/विक स्थानिकारिते/ विक प्रतिति वं नग	मांग सूचना की शिवि शिवि के अनुसार शक्ति	व्यविद्याम का प्रकार (रचनागर / भौतिक के व्यवनी)	व्याप्तिस मृत्य (४)	प्रशेहर संशि (७.)
		) के समस्त कर पान तथा क्षेत्र, की १८%, दर - पूर्व- सक्रम, पश्चिम- करक, करल- मेर्डान ल			eweers à Peus 2
CLA1000020 59/ AP- 0617869	बीबारी जीता देवी हुव बी कमदेश राजीद	10 न्कारी-24 सं 16,05,804/- (रुपये सीतार ताला प्रथम हत्या नाठ सी प्रार सात) 10,01,2024 से अनुसार 11-न्कारी-2021 से पूर्ण कुमान तास तानू निरित्ति ज्यान से साल	epėlijo	कं 2717965/- (ठपये सामाईक आज सजह हम्बार नी सी भागीस गाउँ)	0. 2,75,794/- (७४मे यो लाख इनकंतर राजार साथ भी जीटको मात्र)
		तमा श्रंष्ट को सुमान नवर चीवना, कोटा, राजन :- पूर्व- श्रन्य घर, परिवम- सहक, उत्तर- वका			संदर्गित) भन्ने स्थित है
LAP5000007 II2/ AP- II560484	श्रेणी काम देने, श्रे मेरी जात बंतो, श्री शादि जात बंतों और श्रीमी मेंचू बंतों	17-वितंतर-टा ए इ.स., 204.66/- (क्यारे पार लाख फंटड डंजार जीन सी वीजीस और प्रकान वैसे जान) 20.00.2021 के अनुसार ता-जाव्यूकर-2021 के सूर्य पुणातर तक लागू विजित्त जान के साथ	चीतिक	च ५००००/- (व्यवे पांच आस अह हासर भाव)	रु उद्यासक/- (रुपये प्रभास स्थाप प्रस्त भी भाग)
		भाग तथा अंश जो भारतजी की पांटी र १९३३ वर्ग पुट्, सीमा इस प्रकार है :- पूर्न			
HL20000054 40/AP- 0506967	श्रीमध्यै गीता कका एवं श्री जनावण सात	en-कारस-२१ ६ अस्टरहरूक/- (रुपने तीन लाख विवानने प्रचार नी भी प्रचन और	वीतिक	% अध्यक्त/- (०४४) तीन जाल बागाव	७ ३६३६०/- (७४वे छरीस छन्नम

		का-स्थितर-२००१ से पूर्व पुग्यान यक लागू अधिरिक्त बाज के साथ		No. 200 (SA)	3.3.49
		1945 वर्ग पुट के सम्मा वह पाप तथा और एस् वा इस की खपीर, परिनम- आर्चु आज पुत्र शेर्यू आज			
LAPS000005 38/AP- 0099386	बीमरी ग्यु देवी और बी पारक मत जायकवात	13-जन-20 र 2,98,870/- (रुपये दे जास बद्दानमें तजार बाद सी सदार स्वयं) 21.05.2820 में जुनुसर वर-म्स्टारी-2520 से	dita	च ३,03,000/- (च्यवे तीन आज तीन अध्यत मात्र)	रः 20,200/- (श्वये तीस डब्बर तीन सी सात्र)

कोरी का विकास : पहा सामा का ने समाव का भाग तथा जो। को धाम-नितृत, कातील और किला वितीनगर, सातवान में विका हुंतने कर पात कोरी ने रूप में कारित) है बेक्कल- बता वर्ष फुट, सीमा हुन प्रकार हैं — चूर्न- सहक और राम वंद जानवाल की कोरी, जीवम- हेमराद जानमावल की सादि, जान- हरियम जानवाल की कोरी

पूर्व पुषतान तक अरिटिक ब्याज के राह्य।

दक्षिण- बिहारी लाल जावस्थाल। Se Sic viá franke 26-feet-22 or 673,833 St. / - York Will 6. 416000 /- (698) A LASILA जाक विकास कवार कात भी इक्तीम और रुपान जाज पुजेर, बी LONS00000 स्थार नाव) प्रनक्तर पैसे गात) के स्था में आवश्यास्त्र के व्यवस् अस् भी नाम) मनुसार 29 विशंबर-2022 से पूर्व प्रशंका frent gár 0349350 A तक लागू अधिरिक भाग के साथ।

क्षेत्री का विकल : कट्टा सं ३६ के समस्य का पाप क्या क्षेत्र के लियन नंबर १६ करनी नंबर १८११, पाण मिस्केना, जी, वें! कारी, कारीन संपत्तर, किसी विकीत्यन, राजस्य में लिया है, क्षेत्रफल- 2040 वर्ग पूर, इसकी सीमा इस प्रकार है – पूर्व- कोपी का धर, परिचम- सदक, ध्वास- सदक, प्रक्रिय- तथनी कृषि पूर्णि।

SOI00050032 85/ AP- 0957290	काता स्वा द्वा एव की कांति साल चटिया	10-व्यु-25 स 2,13,202,17/- (वरण पान सक्क पन्द्रा रुवार तीन की करना और सक्क पेचे गान) 31,02,025 से अनुसार 05-व्यु-2023 से पूर्व गुणाम तक सामू स्रोतिक व्यवस्थ से साम।	Mide	१. व्यवस्था /- (स्थवे जर लख साठ (स्थार मात्र)	v. Marien (volt Station (valt 413)
संबंधि का विदरण	पहा संस्था क ने संपति ने	समस्य बद्ध गाम तथा श्रंष्ट औं प्राप्त एवं प्राप्त पंचा	वत कुवलिया, थै.	en अवदार, जिल्ला विद्योदका	, राजस्थान में विधा,

बीजारून- 1082 वर्ग फुट, सीमा इस प्रकार है — कुर्न- सहक, परिवम- दिस ताल तैली की संपत्ति, जार- सोहन जाल बैरवा की संपत्ति, दक्षिण- बाल विजन बैरवा की संपत्ति

भी किशिक्त निर्देश, बीजी जान तथा विकार के नियम का की, सामार निमित्य वार्यासम् : पूर्वक-15, तकां कर, नेकार-44, इतिवर्धकुक हरिया पूर्वकाम, इतियान-120002, शास्त्र कार्यासन : कोटा : प्रथम तक, 10-15, करवानी कॉन्फोलर, फटीमोज बहुत के सामने यूपान्यून, कोटा-124007, तजनवान, विद्योगन्य : मूर्वन वी ६, सी-६, प्रथम तक बीज नगर, विद्योगनद-12001 से किसी भी कार्यियत पर 1000 वर्ज से 500 वर्ज के गाम उपलब्ध होते।

कारतेना दिस्स पर करना होगा। अगर वर्षिक अवधि कं बंदर किंदी भुनवान में पुरू होने की रिप्ति में संपत्ति को निजी सीच हंठ की जानेवानी नई नीतामी/विकाब देतु रख दिया जाएगा। ऐसी रिप्ति में घटण संदेश कर जान वर्षिकों को देविया सेन्टर फदनेना कॉफीरान कि द्वारा जात कर दिया जाएगा और युक्कतों केंग्रा संपत्ति से संबंधित समस्य दाने से बीचा को जाएगा। तप्तीका विकाद आईएसएमार्गि के बीचा अनुमोदन के ब्योन होगा। इसकृष प्रकारों से दिन्ती है कि वे संबंधित निपत्ती/कार्यकों के संविधिक एवं बन्ध प्रदेशनाओं की विकाद/संबधिक कर विद्या कार्यों, और सोसाहति के कार्यों का स्वसन/असिकुटि कर में। कमने संबधि पर कारण किसी मी देवक के मुगतन का सहामद्यानिक प्रदान नहीं करती।

98) सर्वेज पंतित बोली गरि पर 1 प्रतिका का नेकीएल, पदि कोई, जानू होगा विस्तात तांची कोलीनात द्वार पुनवान किया जाना है। तांचीन कोलीनाता को पुनवान को कराई में 10 के अर्थात प्रणा करते की कारावालका है और कारोज की प्रीव करती के पाव प्रणा, 'पायुक्त करते होती। में 1) किया, पूर्वित कहा विकास में तथा विश्वतित किया विस्तिति किया है एक साते के कारोज है। पत्र) वसका केकीएता/ क्षेत्र को विश्वि-कारावा के क्यूकर प्रयोग्यानुवार किया प्रमाणन को पत्रीकृत करते के दिले निवस समय स्टांस सुकत, पत्रीकरण सुक्कों पत्र जावनिक सर्वो

का पुषकार कहर करना होता।

को प्रतिकृत अधिकती के पात किया कोई करण कराये कोती को तरीकरर मा असीकर करने अध्यत निकेता को त्यक्ति/निस्ता/त्यापा करने तथा कोई पूर्व सुकत दिये किया ह

हव जिल्ला के निश्ती में निमान व सते को शांतीय करने का मी पुनिधिकार है। 54) हम्मूक बेलीयालगण की क्षीप पुत्रे मोतवामी से मोबाइस नंबर +61-77210 20003, बी अधियेक सिंह से मोबाइस नंबर +61-90202 82111 एवं की नवेदिया स्थिती से मोबाइस नंबर +61-30042 54060 पर कार्यालय समय (15.00 मी 26.00 को) के दौरान मोबाई साथ सकते हैं।

# त्यारकर्ता/बारंटर/बंधकवर्त हेतु ३० दिवसीय विकय सूचना

हार जबकेत कींच जगरकों /कलकोंचे /करकों में पूर्वित किया जात है कि ने वैजनों की लिए में पूर्व 156) ने जार्गत निरंप पंप पूराव वे विकासक होते कर तर निधा जान एन नामें के तथा, पुरावर कर दें। पुरावर करने में विकार दर्ज गए साकि की कैतनी कर के बनाव देखतीयों, विदे कोई तेन बचती है, की नाहीं १ व करना प्रदेश की नालेंगी। कृते इतिया सेत्रार पाइनेस क्षेत्रीसन तिरिदेश, प्रतिकृत सरित